



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2004 (वैशाख 4, 1926)  
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24—APRIL 30, 2004 (VAISAKHA 4, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued  
by  
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2004

सं. एन-15/13/6/8/2003-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिकारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला तथा तालुक तिरुवनन्तपुरम के राजस्व ग्राम-उल्लूर के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 2 अप्रैल 2004

सं. सम्मेलन-5(19)/2003/छत्तीसगढ़/83--कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के साथ पठित पैरा 5 के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों सर्वश्री सुरेन्द्र कुमार जैन, श्याम सुन्दर वर्मा,

एस. के. जैन, ए. के. चतुर्वेदी को पैरा 4(1) के परन्तुक के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) में नियोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करता है तथा दिनांक 8 नवम्बर, 2003 को भारत के राजपत्र के खंड 4 भाग 3 में प्रकाशित (जारी संख्या 45) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(19)/2003/छत्तीसगढ़/13933 दिनांक 22.10.2003 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना में नियोक्ताओं के प्रतिनिधि पक्ष के अन्तर्गत योजना के पैरा 4(1) में अतिरिक्त सदस्य के रूप में क्रम संख्या 10 से 13 को शामिल किया जाए, अर्थात् :--

- (10) श्री सुरेन्द्र कुमार जैन,  
बी-4, अनुपम नगर, टी. वी. टवर के पास,  
रायपुर, छत्तीसगढ़।
- (11) श्री श्याम सुन्दर वर्मा,  
महाप्रबन्धक,  
आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्रा. लि.,  
दिपिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।
- (12) श्री एस. के. जैन,  
नवभारत एक्सप्लोसिव्स लि.,  
वी. आई. पी. रोड,  
रायपुर, छत्तीसगढ़।
- (13) श्री ए. के. चतुर्वेदी,  
अध्यक्ष, कारपोरेट प्रकाश इंडस्ट्रीज,  
चंपा, जिला-जांजगीर, छत्तीसगढ़।

अजय सिंह  
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 1st April 2004

No. N-15/13/6/8/2003/P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely.

"Ulloor Revenue Village in Thiruvananthapuram Taluk & District".

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

#### EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066, the 2nd April 2004

No. Conf. 5(19)/2003/Chhattisgarh/83.—In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, Central Board of Trustees (EPF) hereby appoints following persons S/Shri Surendra Kumar Jain, Shyam Sunder Verma, S. K. Jain, A. K. Chaturvedi, as additional members of employers' representative in the Regional Committee (EPF) for the state of Chhattisgarh under proviso to para 4(1) of the scheme and makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head

Office, New Delhi vide No. Conf. 5(19)/2003/Chhattisgarh/13933, dated 22.10.2003 published (Issue Number 45) in Part 3 Section 4 of the Gazette of India on 8th November 2003.

In the above said notification, under the category of Employers' Representative as additional Members under proviso to para 4(1) of the scheme, the following shall be added at serial No. 10 to 13, namely :—

- (10) Shri Surendra Kumar Jain,  
B-4, Anupam Nagar, Near T.V. Tower,  
Raipur, Chhattisgarh.
- (11) Shri Shyam Sunder Verma,  
General Manager,  
Aryan Coal Beneficiations Pvt. Ltd.  
Dipika, Korba, Chhattisgarh.
- (12) Shri S. K. Jain,  
Nav Bharat Explosives Limited,  
VIP Road, Raipur, Chhattisgarh.
- (13) Shri A. K. Chaturvedi,  
President,  
Corporate Parkash Industries,  
Champa, District-Janjgir, Chhattisgarh.

AJAI SINGH  
Central Provident Fund Commissioner